



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 52 पटना, बुधवार, 4 पौष 1935 (श0)
25 दिसम्बर 2013 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	8-11
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	12-12
पूरक	---
पूरक-क	13-16

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

25 अप्रैल 2013

सं० 1/रा.स्था.(3)पद.-15/2008-1918—श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. 1/रा.स्था.(3)पद.-15/2008-1919—श्री नयन प्रकाश, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है।

श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी को आदेश दिया जाता है कि प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी का प्रभार अविलम्ब श्री नयन प्रकाश को सौंपे।

अधिसूचना निर्गत की तिथि से श्री ठाकुर स्वतः विरमित समझे जायेंगे। श्री ठाकुर द्वारा अविलम्ब प्रभार नहीं सौंपी जाती है तो श्री नयन प्रकाश उनका प्रभार स्वतः ग्रहण कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम सिंह, अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, स.स.।

19 जुलाई 2013

सं. 1/सह.राज.स्था.(कोर्ट केस)-25/2013-3099—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। श्री आलम अपने पूर्व प्रभार के अतिरिक्त प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के कार्यों का निष्पादन करेंगे।

2. श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

2 सितम्बर 2013

सं. 1/सह.-बि.स.से.-निजी-32/2011-3676—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपनी चिकित्सा कराने हेतु छुट्टी में रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 08.01.2013 से 04.02.2013 तक अर्थात् कुल 28 दिनों का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है।

2. श्री आलम को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में छुट्टी में जाने के संबंध में पूर्ण सतर्कता बरते कि सरकारी कार्य बाधित न हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

18 नवम्बर 2013

सं. 1/सह.रा.स्था. वि.स.से. (स्थाना.)-14/2011/4728—श्री रामश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना जहानाबाद के महाप्रबंधक, के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है।

सं. 1/सह.रा.स्था. वि.स.से. (स्थाना.)-14/2011/4729—श्री संजय कुमार मंडल जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना अररिया के महाप्रबंधक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार का ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है।

सं. 1/सह.रा.स्था. वि.स.से. (स्थाना.)-14/2011/4730—श्री विनोद जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के महाप्रबंधक, के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(हो)-अस्पष्ट, उप-सचिव।

27 नवम्बर 2013

सं. 1/सह.रा.स्था.(निजी)-18/2013-4892—श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज की अपनी पत्नी के बेहतर ईलाज के निमित्त दिनांक 25.11.2013 से 10.12.2013 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार मंडल, प्रभारी, सहायक निबंधक, किशनगंज, जिला सहकारिता पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. यह व्यवस्था अस्थायी है, और श्री प्रसाद के अवकाशों परान्त योगदान के साथ ही स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

4 दिसम्बर 2013

सं. 1/रा.स्था.(3)पदा.-15/2008-सह.-5022—श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि., पूर्णियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

5 दिसम्बर 2013

सं. 1/रा.स्था.(3)पदा.-15/2008-सह.-5055—विभागीय अधिसूचना सं० 5022 दिनांक 04.12.13 के क्रम में श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज, कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

19 नवम्बर 2013

सं० 1/पी०-1013/2013-सा० प्र०-17704—आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा श्रीमती रेनु लता, भारतीय आर्थिक सेवा (2004) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार में उपलब्ध कराये जाने के आलोक में श्रीमती लता को अगले आदेश तक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव।

23 नवम्बर 2013

सं० 1/पी०-1006/2013-सा० प्र०-17924—समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित श्री चित्तरंजन सिंह, भा०प्र०से० (2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1006/2013-सा० प्र०-17925—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत अररिया जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव।

25 नवम्बर 2013

सं० 1/अ०-01/2011-सा० 17989—श्री बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से० (2008), जिला पदाधिकारी, बाँका को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.11.2013 से दिनांक 25.11.2013 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्री कार्तिकेय, भा०प्र०से० की उक्त छुट्टी अवधि में श्री रमेश प्रसाद रंजन, उप-विकास आयुक्त, बाँका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बाँका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

27 नवम्बर 2013

सं० 1/अ०-01/2011-सा० प्र०-18159—श्री बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से० (2008), जिला पदाधिकारी, बाँका को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 नियमों के अधीन दिनांक 17.11.2013 से 25.11.2013 तक कुल नौ (9) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्री कार्तिकेय की अवकाश-अवधि में श्री रमेश प्रसाद रंजन, उप-विकास आयुक्त, बाँका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बाँका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

3. उपर्युक्त के आलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 17989, दिनांक 25.11.2013 को विलोपित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

28 नवम्बर 2013

सं० 1/अ०-13/2012-सा०-18193—श्री दिवेश सेहरा, भा०प्र०से० (2005), जिला पदाधिकारी, सीवान, बिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.12.2013 से दिनांक 28.12.2013 तक कुल-14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्री दिवेश सेहरा, भा०प्र०से० की उक्त छुट्टी अवधि में श्री कमलाकांत, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सीवान अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सीवान के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

28 नवम्बर 2013

सं० 1/वि०-23/2012 पार्ट-I सा०प्र०-18206—श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, भा०प्र०से० (1999), निदेशक, भू-अर्जन, बिहार को भारत चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षक नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनकी 07.11.2013 से 10.12.2013 तक की अनुपस्थिति अवधि में श्री हुकुम सिंह मीणा, भा०प्र०से० (1992), सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, भू-अर्जन, बिहार के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव ।

3 दिसम्बर 2013

सं० 1/पी०-1017/2012-सा०प्र०-18365—श्री बी० प्रधान, भा०प्र०से०(87), खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

सं० 1/पी०-1017/2012-सा०प्र०-18366—श्री धनश्याम प्रसाद दत्तुआर, भा०प्र०से०(99), अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूतत्व निदेशालय, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सचिव ।

4 दिसम्बर 2013

सं० 1/अ०-02/2012-सा०प्र०-18436—श्रीमती वन्दना किनी, भा०प्र०से० (89), आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री के०पी० रामय्या, भा०प्र०से०(86), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की आकस्मिक छुट्टी (दिनांक 28.11.2013 से दिनांक 05.12.2013 तक) अवधि में अपने कार्यों के अतिरिक्त आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

6 दिसम्बर 2013

सं० 1/एल०-46/2001सा०-18620—श्री लियान कुंगा, भा.प्र.से. (1985), ईखायुक्त, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.12.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री लियान कुंगा, भा.प्र.से. की उक्त छुट्टी अवधि में श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. (1988), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2013

सं० 5/स०-विविध (खादी आयोग)-28/05/5307—श्री ओम प्रकाश पाठक, उप-उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए अपने कार्यों के अतिरिक्त उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर 2013

सं० 6/नि०प्रति०नि०-01-02/2013-4436—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं० से 55वीं० सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशासित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शक्तों के अधीन वेतनमान रु० 9300-34800 (पे बैंड-2) ग्रेड वेतन रु० 5400 में परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के रूप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	अनुक्रमांक (रौल नं०)	उम्मीदवारों का नाम	BPSC का क्र०सं०	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	295630	श्री सिंह प्रदीप भुवनेश्वर	1	05/01/1977	प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	सामान्य	
2	186457	श्री कृष्णा मोहन सिंह	2	02/02/1979	वैशाली	सामान्य	
3	125843	कुमारी अनामिका	3	24/08/1986	सीतामढ़ी	सामान्य	
4	235196	निवेदिता	6	23/11/1983	पटना	सामान्य	
5	261241	श्री नवीन कुमार	10	28/12/1977	पुर्णिया	सामान्य	
6	151016	श्री क्षितिज कुमार सिंह	14	14/06/1986	अम्बेदकर नगर (उत्तर प्रदेश)	सामान्य	

क्र० सं०	अनुक्रमांक (रौल नं०)	उम्मीदवारों का नाम	BPSC का क्र०सं०	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
7	273451	श्री पवन कुमार सिंह	21	20/07/1985	जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	सामान्य	
8	108090	श्री आशीष रंजन	22	01/03/1980	नालन्दा	सामान्य	
9	271032	श्री सुमन कान्त झा	25	26/06/1981	बेगूसराय	सामान्य	
10	234291	श्री यदुवंश	28	02/11/1981	लखीसराय	सामान्य	
11	233862	श्री अजय प्रकाश	30	29/06/1986	सिवान	सामान्य	
12	307984	मिनी	31	10/07/1987	बाँका	सामान्य	
13	159869	श्री अजय कुमार सिंह	33	11/01/1980	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	सामान्य	
14	126361	श्री शिव कुमार	35	05/01/1980	भागलपुर	सामान्य	
15	160007	श्री विवेकानन्द राय	37	07/02/1977	बाँका	सामान्य	गुवाहटी उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमा के फलाफल से नियुक्ति प्रभावित होगी।
16	112817	श्री ज्ञान देव प्रभाकर	42	01/01/1976	पटना	पिछड़ा वर्ग	
17	161608	श्री रवीन्द्र कुमार	43	22/11/1981	पटना	अनुसूचित जाति	
18	200515	प्रीति सिन्हा	45	20/12/1984	नवादा	पिछड़ा वर्ग	
19	214048	रेणु कुमारी	47	21/09/1980	पटना	पिछड़ा वर्ग	
20	177381	श्री विशाल कुमार गुप्ता	50	12/03/1981	नवादा	पिछड़ा वर्ग	
21	116322	श्री बाल्मिकी कुमार	55	12/10/1986	जहानाबाद	अनुसूचित जाति	
22	131635	श्री अजीत रंजन	56	20/08/1980	पटना	अनुसूचित जाति	
23	161764	श्री सुकेश कुमार	59	01/03/1984	खगड़िया	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
24	145206	श्री मुकेश कुमार	66	05/02/1982	भागलपुर	अनुसूचित जाति	
25	187307	श्री देव आनन्द	68	03/02/1983	कटिहार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
26	306040	आबिद सुबहानी	72	04/10/1983	पटना	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
27	193504	अंजू कुमारी	75	05/04/1984	पटना	अनुसूचित जाति	

क्र० सं०	अनुक्रमांक (रौल नं०)	उम्मीदवारों का नाम	BPSC का क्र०सं०	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
28	238377	श्री संजय कुमार	79	26/12/1979	मुजफ्फरपुर	अनुसूचित जाति	
29	230155	श्री सुशील कुमार सुमन	83	20/07/1981	नालन्दा	अनुसूचित जाति (विकलांग)	

1. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गमन तिथि के 07 (सात) दिनों के अन्दर वाणिज्य-कर विभाग के मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। योगदान देने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण कोटि प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 21.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

परिवहन विभाग

आदेश

1 नवम्बर 2013

सं० 2/सी.एम.टी.-46/2011-5625—जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 1737 दिनांक 31.10.2013 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वैशाली में पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के अन्तर्गत उल्लिखित धाराओं यथा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196 या 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के अवधि के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में निहित राशि से कम नहीं होगी।

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	2	3
1	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी वैशाली	परिवहन चेकपोस्ट हाजीपुर (वैशाली) एवं संलग्न क्षेत्र
2	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल वरीय उप-समाहर्ता, वैशाली	„
3	श्री राम दुलार राम, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआ वैशाली	„
4	श्री सुनेन्द्र कुमार कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआ, वैशाली	„
5	श्री रामशीष राम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार वैशाली	„
6	श्री ओम प्रकाश मिश्रा, जिला उद्यान पदाधिकारी वैशाली	„
7	श्री अजय कुमार महतो, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली	„
8	श्री राजीव कुमार गुप्ता, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी वैशाली	„
9	श्री ब्रजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली	„
10	श्री राकेश कुमार जिला राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली	„
11	श्री जय राम पाल, परियोजना निदेशक, आत्मा, वैशाली	„
12	श्री चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर, वैशाली	„
13	श्री सुरेश कुमार साह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बिदुपुर वैशाली	„
14	श्री सुनील कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, भगवानपुर, वैशाली	„
15	श्री शंकर दयाल उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, लालगंज वैशाली	„
16	श्री किसलय किशोर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गोरौल	„
17	श्री कमलेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रवर्तन पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली	„
18	श्री अशोक कुमार प्रवर्तन पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली	„
19	श्री शंकर ठाकुर, निरीक्षक माप एवं तौल, हाजीपुर	„
20	श्री नन्द कुमार, निरीक्षक माप एवं तौल, हाजीपुर	„

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	2	3
21	श्री शिव कुमार सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली	„
22	श्री उदय शंकर शर्मा, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, हाजीपुर	„
23	श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, योजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली, हाजीपुर	„
24	श्री उमेश मंडल, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली	„
25	श्री राम प्रवेश राम, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली	„

2. जिला पदाधिकारी, वैशाली अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन विभाग के मुख्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

4 दिसम्बर 2013

सं० 2/सी.एम.टी.-46/2011-6230—जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक 1703/स्था० दिनांक 29.11.2013 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बेगुसराय जिले में पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को ओवरलोडेड वाहनों के जांच हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के अन्तर्गत उल्लिखित धाराओं यथा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196 या 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के अवधि के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में निहित राशि से कम नहीं होगी।

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
1	श्री प्रदीप कुमार	वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
2	श्री कृष्ण कुमार यादव	वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
3	श्री कुमार धनंजय	वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
4	श्री राकेश कुमार झा	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बीहट-सह-वरीय उप-समाहर्ता
5	श्री अरविन्द कुमार सिंह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर अनुमंडल, बेगुसराय
6	श्री शिव चरण प्रसाद	कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल, तेघड़ा
7	श्री अमरनाथ गुप्ता	कार्यपालक दण्डाधिकारी, मंझौल अनुमंडल
8	श्री संतोष कुमार रजक	कार्यपालक दण्डाधिकारी, पंचायत तेघड़ा
9	श्री ललन प्रसाद	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी बेगुसराय
10	श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय
11	श्री देव नारायण महतो	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बरौनी
12	श्री मणिभूषण प्रसाद	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बरौनी
13	श्री विरेन्द्र शर्मा	सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, बेगुसराय
14	श्री प्रदीप कुमार	सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय
15	श्री पंकज कुमार	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, भगवानपुर

2. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन विभाग के मुख्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

सं० 1/सी०-1007/2013(खंड)-सा०प्र०-18464

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

4 दिसम्बर 2013

विषय:- राज्य गैर-असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8 (2) तथा भा०प्र०से० (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के तहत गैर- राज्य असैनिक सेवा से भा०प्र०से० में चयन वर्ष, 2013 हेतु चयन द्वारा नियुक्ति के निमित्त विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार (स्क्रीनिंग) कर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली भेजा जाना है।

2. गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा०प्र०से० में नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन निम्नवत् किया जाता है-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. मुख्य सचिव, बिहार | — | अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त, बिहार | — | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार पटना | — | सदस्य |
| 4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |

आदेश:- आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सचिव।

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग**

शुद्धि-पत्र

25 अक्तूबर 2013

सं० कारा/नि०को० 02/13-5276—कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4524 दिनांक 11.09.13 के क्रमांक 3 के द्वारा श्री उमाकान्त शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक के स्थान पर सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना को पदनाम से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है।

इसमें आंशिक संशोधन करते हुए नाम से श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

13 दिसम्बर 2013

सं० 6/प्र०-06-09/2012-4486—विभागीय अधिसूचना संख्या 3268 दिनांक 10.09.2013 द्वारा श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जमुई अंचल, जमुई को दिनांक 18.07.2001 के प्रभाव से वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 6600 रु० में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति योजना (ए०सी०पी०) प्रदान की गई है जिसे दिनांक 18.07.2001 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200 पढ़ा जाय।

2. अधिसूचना संख्या 3267, 3268, 3269, 3270 एवं 3271 दिनांक 10.09.2013 में निहित प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

22 दिसम्बर 2013

सं० जी/रेलवे हाल्ट-02/2004-11492—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11/8/2013—एम एण्ड जी दिनांक 16.12.2013 द्वारा दी गई अनापत्ति के आलोक में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में अवस्थित 'सिमरिया' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'दिनकर ग्राम सिमरिया' किया जाता है।

तदनुसार स्टेशन का नाम देवनागरी एवं रोमन लिपि में निम्न प्रकार होगा :-

क्र० सं०	वर्तमान नाम	रोमन लिपि में नया नाम	देवनागरी लिपि में नया नाम
1	'SIMARIA'	'DINKAR GRAM SIMARIA'	'दिनकर ग्राम सिमरिया'

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवव्रत सिन्हा, उप-सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

11 दिसम्बर 2013

सं० बि०उ०- 02-05/2010-2420—CWJC No.- 22809/2013 हरिनगर सुगर मिल लि०, हरिनगर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.12.2013 को पारित अंतरिम आदेश के द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक-2120 दिनांक 25.10.2013 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप आलोच्य क्षेत्र के ईख काश्तकारों के हित में ईख की खपत सुनिश्चित करने हेतु हरिनगर सुगर मिल्स के प्रस्ताव के आलोक में निम्नांकित क्रय केन्द्रों पर ईख की मात्रा आवंटित करते हुए ईख खरीद की अनुमति दी जाती है:-

क्रमांक	प्रखंड का नाम	क्रय केन्द्र का नाम/थाना संख्या	गन्ने का अनुमानित मात्रा
1	भितहॉ	खरवा टोला/272	1.14 (लाख/क्वी)
2	भितहॉ	मोराडीह/412	0.44 (लाख/क्वी)

आदेश से,
लियान कुंगा, ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 2157—मैं गौरव, पिता—सुरेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, निवास मकान नं० 14, गणेश पथ, शिवपुरी, थाना—शास्त्रीनगर, पटना, शपथ पत्र संख्या 6502 दिनांक 13.05.2013 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं गौरव श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा।

गौरव।

No. 2157— I, Gaurav, S/o-Sureshwar Prasad Srivastav, R/o- H.N.-14 Ganesh Path, Shivpuri, Patna will now be known as Gaurav Srivastava vide Affidavit No. 6502/13-05-2013 for all purposes.

GAURAV.

No. 2158— I, Rama Autar Mahto, S/o-Late Bhavichhan Mahto, Village+P.O.-Satmalpur, P.S.-Warisnagar, Distt.-Samastipur (Bihar) do here by solemnly affirm and declare that my name in academic certificate and service record is Rama Autar Mahto (रामावतार महतो) Due to certain reason I have to change my name. Henceforth I shall be known as Ram Avtar Singh (रामावतार सिंह) for all purpose vide Affidavit No. 5243, dated 18-10-2013.

RAM AUTAR MAHTO.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर 2013

सं. 1/निग.को.(रा.आ.)-सी.बी.-26/2009/4591—श्री पी.पी. ओझा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, चाईबासा (झारखंड) सम्प्रति सेवा निवृत्त अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पदस्थापनकाल में उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करने मो. सररुद्दीन, लिपिक, कार्यालय सहायक, निबंधक, सहयोग समितियाँ, धाटशाला अंचल (चाईबासा) के साथ मिलकर रु. 1.30 लाख (एक लाख तीस हजार रुपये) गृह निर्माण अग्रिम वित्त विभाग, फर्जी स्वीकृत्यादेश के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी कर राशि के गबन करने के प्रथम दृष्टव्या आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री ओझा के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत विभाग द्वारा संकल्प सं. 3200, दिनांक 09.08.10 एवं संकल्प सं. 3873, दिनांक 10.09.10 विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-31 सं.स. को., दिनांक 03.05.2011 द्वारा विभाग में अधिगम प्राप्त हुआ। साथ ही निगरानी विभाग के पत्रांक-1832, दिनांक 15.04.2013 द्वारा भी इस मामले से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं निगरानी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री ओझा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया।

परन्तु आरोप की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि श्री ओझा के विरुद्ध लगाये गये आरोप-1997 का है जबकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प दिनांक 09.08.2010 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.)के अन्तर्गत आरोप की धटना से संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही का अन्तराल 4 वर्षों से अधिक का है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही कालबाधित हो चुका है। इस बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श है कि विभागीय कार्यवाही कालबाधित श्रेणी में आता है। किन्तु श्री ओझा के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है।

उक्त परामर्श पर विभाग के स्तर पर सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नांकित आदेश संसूचित किया जाता है।

1. वित्त विभाग के फर्जी स्वीकृत्यादेश के आधार पर गृह निर्माण अग्रिम निकासी कर राशि का गबन करने का आरोप में इनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जाय।
2. बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी.) के तहत विभागीय कार्यवाही कालबाधित की श्रेणी में आने के फलस्वरूप श्री ओझा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
इस प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप-सचिव (निगरानी)।

सं० कारा/नि०को० 02/13-4524
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

संकल्प

11 सितम्बर 2013

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-2040, दिनांक 17.04.2013 द्वारा श्रीमती ईला इस्सर अधीक्षक, मंडल कारा हाजीपुर को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2122 दिनांक 22.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही को संचालित करने हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री उमाकांत शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. श्री उमाकांत शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक का स्थानान्तरण काराधीक्षक विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के पद पर हो जाने के कारण उनके स्थान पर सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 (ह०)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

सं० कारा/नि०को०(क)-113/2010-5824
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

संकल्प

28 नवम्बर 2013

राज्य के विभिन्न काराओं का महालेखाकार बिहार द्वारा Performance Audit कराने के क्रम में विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय अनियमितता पायी गयी। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा त्रिसदस्यी जाँच दल गठित किया गया जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपकारा नवगछिया में बाढ़ का पानी पहुँच जाने की आशंका एवं वार्ड निर्माण, मरम्मती आदि हेतु दिनांक 19.07.2004 एवं दिनांक 20.07.2004 को उपकारा, नवगछिया से कुल 311 पुरुष बंदी तथा 05 महिला बंदी को विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में स्थानान्तरित के बावजूद विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन काराधीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा 3415806 (चौतीस लाख पंद्रह हजार आठ सौ छः रुपये मात्र) निकासी की गयी।

3. उक्त के आलोक में उपकारा, नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर, श्री विश्वनाथ प्रसाद सम्प्रति सेवा निवृत्त द्वारा की गयी निकासी एवं संलग्न आरोप पत्र के आधार पर उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (यथा संशोधित) के अनुसार उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 (ह०)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

सं० कारा/नि०को०(क)-113/2010-5823
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

संकल्प

28 नवम्बर 2013

राज्य के विभिन्न काराओं का महालेखाकार बिहार द्वारा Performance Audit कराने के क्रम में विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय अनियमितता पायी गयी। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा त्रिसदस्यी जाँच दल गठित किया गया जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपकारा नवगछिया में बाढ़ का पानी पहुँच जाने की आशंका एवं वार्ड निर्माण, मरम्मती आदि हेतु दिनांक 19.07.2004 एवं दिनांक 20.07.2004 को उपकारा, नवगछिया से कुल 311 पुरुष बंदी तथा 05 महिला बंदी को विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में स्थानान्तरित के बावजूद विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन काराधीक्षक श्री प्रदीप कुमार झा द्वारा 33,17,136 (तेतीस लाख सतरह हजार एक सौ छतीस रुपये मात्र) निकासी की गयी।

2. उक्त के आलोक में उपकारा, नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर श्री प्रदीप कुमार झा सम्प्रति अनिवार्य सेवा निवृत्त द्वारा की गयी निकासी एवं संलग्न आरोप पत्र के आधार पर उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (यथा संशोधित) के अनुसार उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग।

अधिसूचनाएं

16 दिसम्बर 2013

सं० कारा/नि0को0 (क) 70/2008-6140—श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया को उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य संपादित करने, आपुरको से पक्षपात तथा क्रय एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने हेतु उनके विरुद्ध संकल्प संख्या 2119, दिनांक 20.05.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है जो दण्ड अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

2. श्री विश्वनाथ प्रसाद, को इनकी सेवानिवृत्त की तिथि दिनांक 31.10.2013 को देखते हुए एक दुसरे मामले में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5497, दिनांक 07.11.2013 द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जा चुका है।

3. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 2119, दिनांक 20.05.2010 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत परिवर्तित किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

7 नवम्बर 2013

सं० कारा/नि0को0 (क) 41/2012-5497—श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक को उनके द्वारा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में अपने पदस्थापन अवधि में बरती गई कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही हेतु विभागीय ज्ञापांक-4377, दिनांक 26.09.2012 द्वारा निलंबित कर उनके विरुद्ध संकल्प संख्या-4692 दिनांक 16.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है जो प्रक्रियाधीन है।

2. सम्यक विचारोपरान्त श्री विश्वनाथ प्रसाद, को इनकी सेवानिवृत्त की तिथि दिनांक 31.10.2013 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-4692 दिनांक 16.12.2012 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत परिवर्तित किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

22 अक्तूबर 2013

सं० के0/कारा/रा0प0-04/07-5215—शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ से बंदी मुन्ना कुमार पे0 वीरेन्द्र कुमार सिंह की गलत कारा मुक्ति तथा कारा हस्तक नियम-530 की अवहेलना के आरोप में श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, तत्कालीन अधीक्षक, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विरुद्ध गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-9393 दिनांक 23.08.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. अतः संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं विभागीय समीक्षा के क्रम में श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के आधार पर इनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक, प्रशासन।

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2013

सं० कौन/भी-120/2006/156—श्री अभिमन्यू सिंह, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया को विभागीय अधिसूचना संख्या 108 दिनांक 19.03.2007 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 065/2006 दिनांक 17.10.2006 के अधीन निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 60/सी0(अनु0) दिनांक 02.02.2007 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिंह द्वारा उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या सी० डब्लू० जे० सी० 2384/2010 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.08.2010 को पारित न्याय—निर्णय में उनके निलंबनादेश को निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर एल० पी० ए० सं० 797/2011 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2011 को पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन में श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

3. इनके पदस्थापन के संबंध में निर्णय अलग से लिया जायेगा।

4. श्री सिंह के द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि के संबंध में निर्णय दर्ज थाना कांड के फलाफल के पश्चात् लिया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)—अस्पष्ट, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>